

**जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश**  
**प्रेस नोट 47, दिनांक 27.09.2021**

थाना कोतवाली उरई पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24.09.2021 को थाना उरई के मो0 राजेन्द्र नगर में हुयी हत्या की घटना का सफल अनावरण कर, मृतक की पत्नी को आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण –**

1. रामसिया पत्नी नर्वदा प्रसाद ओमरे नि0 राजेन्द्र नगर थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन।

**बरामदगी का विवरण –**

1. 01 अदद आला कत्ल सब्बल

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 25.09.2021 को वादी श्री दीपक कुमार पुत्र स्व0 श्री नर्वदा प्रसाद ओमरे नि0 मुहल्ला राजेन्द्र नगर थाना उरई जनपद जालौन ने तहरीरी सूचना दी कि मेरे पिता नर्वदा प्रसाद ओमरे को दो अज्ञात लोग जो ट्यूशन पढने के लिये पिता जी के पास आये थे जिनके द्वारा हत्या कर दी है, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई पर मु0अ0सं0 640/21 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल निर्देशन में रोकथाम अपराध, उक्त हत्या की घटना में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली उरई पुलिस टीम को लगाया गया था।

**गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय –**

थाना कोतवाली उरई पुलिस टीम द्वारा अत्यन्त परिश्रमपूर्वक ढंग से कार्य करते हुये महत्वपूर्ण जमीनी साक्ष्य एकत्र कर थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी, वादी से पुंछताछ के दौरान अभियुक्ता का नाम प्रकाश में आया तो अभियुक्ता को उसके घर मो0 राजेन्द्र नगर कोत0 उरई से दिनांक 27.09.2021 को समय करीब 12.15 बजे गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्ता की निशादेही पर आलाकत्ल बरामद किया गया।

पुंछताछ में अभियुक्ता द्वारा बताया गया कि मैं अपने पति नर्वदा प्रसाद ओमरे से अपनी बेटी को प्लॉट देने के लिये कहती थी तो वो देते नहीं थे घटना के दिन दोपहर में करीब 3.00 बजे प्लॉट न देने की बात पर उन्होने मुझे जूतों से मारा था इसी बात पर मैंने क्रोध में आकर रात में जब मेरी बेटी और पति सो गये तो मैंने अपने पति के सिर पर सब्बल से दो बार चोट पहुंचायी थी और सब्बल को पीछे के कमरे में छिपा दिया था।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

1. प्र0नि0 श्री नागेन्द्र कुमार पाठक कोत0 उरई
2. उ0नि0 श्री राजेश सिंह कोत0 उरई
3. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र यादव कोत0 उरई
4. का0 1855 आशुतोष कोत0 उरई
5. का0 925 अमित दुबे कोत0 उरई
6. का0 311 मनीराम कोत0 उरई
7. म0का0 77 अर्चना कोत0 उरई